



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 अग्रहायण 1937 (श10)  
(सं0 पटना 1297) पटना, मंगलवार, 1 दिसम्बर 2015

सं0 07/सू० प्रा०-190/2011-1607  
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

30 नवम्बर 2015

**विषय:-** राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायकों/पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह "ग" के कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क के संशोधन के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 आदेश सं०-1609 दिनांक 24.05.2011 द्वारा अधिसूचित किये जाने के आलोक में सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-सह-पठित ज्ञापांक-1285 दिनांक 08.11.2011 के तहत राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायकों/पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह "ग" के कर्मियों का कम्प्यूटर सक्षमता प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु National Institute of Electronic & Information Technology (NIELIT) को प्राधिकृत किया गया है तथा उनके द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने संबंधी कार्य किये जा रहे हैं।

प्रशिक्षण हेतु वर्तमान में निर्धारित शुल्क जो प्रशिक्षणार्थियों/अभियार्थियों के द्वारा दिया जा रहा है, वह शुल्क पूर्व निर्धारित सेवा शुल्क 14% पर आधारित है, परन्तु दिनांक 15.11.2015 से केन्द्र सरकार के द्वारा सेवा शुल्क 14% को 14% + 0.5% (Swatch Bharat Cess) = 14.5% में परिवर्तित कर दिये जाने के फलस्वरूप अब सेवा शुल्क के रूप में 14.5% राशि देय है।

उक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण हेतु एवं इसके पश्चात् आयोजित होने वाले परीक्षा तथा बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये आयोजित होने वाले परीक्षा में शुल्क का निर्धारण NIELIT के द्वारा उपलब्ध कराये गये दर के आधार पर अब दिनांक 15.11.2015 के प्रभाव से निम्न रूप में किया जाता है :-

(क) प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क :

Head	Value (Rs.) as on 31.05.2015	Value (Rs.) as on 01.06.2015	Value (Rs.) as on 15.11.2015
Course Fee	4460/-	4460/-	4460/-

Service Tax	552/- (@ 12.36%)	625/- (@14%)	647/- (@ 14.5%)
Refreshment Charges	223/-	250/-	223/-
Service Tax	27/- (@ 12.36%)		32/- (@ 14.5%)
<b>Total :-</b>	<b>5262/-</b>	<b>5335/-</b>	<b>5362/-</b>
<b>Effective Change :-</b>		<b>27/-</b>	

(ख) प्रशिक्षण प्राप्त किये बिना परीक्षा शुल्क:

Head	Value (Rs.) as on 31.05.2015	Value (Rs.) as on 01.06.2015	Value (Rs.) as on 15.11.2015
Fee	1000/-	1000/-	1000/-
Service Tax	124/- (@ 12.36%)	140/- (@14%)	145/- (@ 14.5%)
<b>Total :-</b>	<b>1124/-</b>	<b>1140/-</b>	<b>1145/-</b>
<b>Effective Change :-</b>		<b>5/-</b>	

(ग) पुनः परीक्षा शुल्क:

Head	Value (Rs.) as on 31.05.2015	Value (Rs.) as on 01.06.2015	Value (Rs.) as on 15.11.2015
Fee	200/-	200/-	200/-
Service Tax	25/- (@ 12.36%)	28/- (@14%)	29/- (@ 14.5%)
<b>Total :-</b>	<b>225/-</b>	<b>228/-</b>	<b>229/-</b>
<b>Effective Change :-</b>		<b>1/-</b>	

अतएव वर्णित सारणी अनुसार शुल्क संबंधी सूचना अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं कर्मियों को उपलब्ध करायी जाय। शुल्क संबंधी निर्धारित राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से **NIELIT PATNA CENTRE Payable at Patna** में जमा करना होगा। इसे तत्कालीक प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० एस० सिद्धार्थ,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1297-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>